

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 2001 (पौष 30, 1922)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY JANUARY 20, 2001 (PAUSA 30, 1922).

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be bound as a separate compilation).

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(इस मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं।
(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 जनवरी 2001

सं० ए०-22012/1/2001-पीएमए—राष्ट्रपति जी, श्री ए०-एस० दुल्लू, आई० पी० एस० (सेवा निवृत्त) को दिनांक 1, जनवरी, 2001 के पूर्वार्द्ध से लेकर अगले आदेश होने तक अनुबंध आधार पर प्रधान मंत्री कार्यालय में विशेष कार्यधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी० के० राय, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2001

सं० आर० एस०/2(ii)/2000/1-कामिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/अधिशसी/समिति/न्यायाचार अधिकारी के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों को 3 जनवरी, 2001 के पूर्वार्द्ध से आगामी अर्द्ध तक दृ.

सचिवालय में अवर सचिव वेतन और लेखा अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की इच्छा की है —

1. श्री डी० एस० रावत
2. श्री रोहतास
3. श्री जगमोहन सुन्निवाल (प्रोफार्मा आधार पर)
4. श्री मोम राज सिंह

2. श्री मोमराज सिंह की नियुक्ति श्री जगमोहन सुन्निवाल, अवर सचिव की प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर होगी।

प्र० सं० गुहाराय, उक्त सचिव

सं० आर० एस०/2(ii)/2000/2-कामिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निम्नलिखित वरिष्ठ अधिशसी/विधायी/समिति सहायकों को 3 जनवरी, 2001 के पूर्वार्द्ध

से आगामी आवेशों तक इस सचिवालय में विधायी/अधिकांसी/समिति/न्यायाचार अधिकारी के संदर्भ में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है :—

1. श्रीमती अपंणा मेंदीरसा
2. श्री बिलोक नाथ पाण्डेय
3. श्री राकेश प्रसाद
4. श्रीमती संगिता किशोर
5. श्री राजीव श्रीवास्तव
6. श्री राकेश नैथानी
7. श्री के० एन० ईरिन्द्र कुमार

2. राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निम्नलिखित धरिष्ठ अधिकांसी/समिति सहायकों को भी क्रमशः श्री जगमोहन सुम्रियाल, अवर सचिव के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण रिक्त हुए पद और श्रीमती गायत्री कान्त, अधिकांसी अधिकारी के अवकाश पर चले जाने के कारण रिक्त हुए पद पर 3 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आवेशों तक 'आगामी अधिकांसी/समिति/न्यायाचार अधिकारी' के संदर्भ में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है :—

1. श्री दिनेश कुमार जुनेजा
2. श्री शशि भूषण

3. श्री विद्या सागर प्रसाद सिंह और श्री सोराबजी बी० जिन्हें क्रमशः श्रीमती गायत्री कान्त, अधिकांसी अधिकारी के अवकाश पर चले जाने के कारण रिक्त हुए पद और श्री जगमोहन सुम्रियाल, अधिकांसी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण रिक्त हुए पद पर विधायी/अधिकांसी/समिति/न्यायाचार अधिकारी के संदर्भ में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 3 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आवेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त कर दिया गया है।

4. उपर्युक्त नियुक्तियों के अतिरिक्त स.सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आवेशों के अध्ययन होगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2000

सं० पी०एफ०-1713(3)/एएन-1/जीएन-4513/2000—अध्यक्ष महोदय 10,000-15,200 रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में कार्यरत श्री टी०एस० सेमुएल को 19 दिसम्बर, 2000 से आगामी आवेशों तक उप निदेशक (सुरक्षा) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कार्यभार धारण अवधि के दौरान श्री टी० एस० सेमुएल सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में अपने ग्रेड वेतन के अतिरिक्त एक० आर० 35 के अन्तर्गत उपबन्धों के अनुसार विशेष वेतन प्राप्त करेंगे।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1712(3)/एएन-1/जीएन 4514/2000 अध्यक्ष महोदय 8000-13500 रुपये के वेतनमान में सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री खेमचन्द सिंह को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में 19 दिसम्बर, 2000 से आगामी आवेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

दिनांक 19 दिसम्बर, 2000

सं० पी एफ 2273(3)/जीएन-4512/2/एएन-1/2000 निम्नलिखित व्यक्तियों ने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में अतिरिक्त अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है :—

1. श्री हुलासी राम
2. श्री हरीश चन्द्र-I
3. श्री राजेश रंजन कुमार
4. श्री राज श्रीवास्तव
5. श्री पी० सी० चौलडा
6. श्रीमती ममता केनवाल
7. श्री कृष्ण सरकार
8. श्री मूलचन्द

यह अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना सं० जीएन-4248/98 के क्रम में है।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

सं० पी एफ० 2782(3)/जीएन-4522/एएन-1/2001 अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर डा० ए० के० पाण्डेय आई०ए०एस० (बिहार, 65), जो लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपर सचिव थे 31 दिसम्बर, 2000 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

सं० एफ 15/10/एएन-1/जीएन-4520/2000—अध्यक्ष महोदय लोक सभा सचिवालय द्वारा 23, 24 और 25 जून, 2000 को आयोजित लिखित परीक्षा तथा 12 अक्टूबर, 2000 को आयोजित वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों का कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के पद हेतु चयन हो जाने पर उन्हें 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में स्थानापन्न आधार पर कार्यकारी/विधायी/समिति/

प्रोटोकाल अधिकारी के ग्रेड में 21 दिसम्बर, 2000 से आगामी आवेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री राम कुमार सूर्यनारायणन
2. धीरज कुमार

2. उपर्युक्त व्यक्ति कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकाल अधिकारी के ग्रेड में 21 दिसम्बर, 2000 से 20 दिसम्बर, 2001 तक एक वर्ष की अवधि के लिए परिवर्द्धता पर रहेंगे।

3. कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकाल अधिकारी के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता उन नए वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी जिन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है और भूतलसी प्रभाव से लागू करते हुए यथासमय जारी किया जाएगा।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 02 जनवरी 2001

सं० ए० 19011/1/2001-प्रशा० 1-राष्ट्रपति, श्री एस० सुन्दर राजन, आर ए एस (66) को 1 जनवरी 2001 के पूर्वार्द्ध से प्राप्त आवेशों का निराकरण सचिवालय में 26000/- रुपये (नियत) के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त करते हैं।

वी० के० गाबा, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2000

सं० एफ-6(1786)/99-प्रशा०-1-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 08-06-2000 के आदेश सं० 12025/3/99-आर्० ए० ए० के अनुसार, नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने के लिए योजना आयोग से दिनांक 18-12-2000 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2001

सं० एफ०-6 (1701)/97-प्रशासन-1-राजभाषा विभाग में सचिव के पद पर उनका नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री के० बी सक्सेना, आर्० ए० ए० (बिहार : 64) ने दिनांक 01-01-2001 (पूर्वार्द्ध) से योजना आयोग में प्रधान सलाहकार का पदभार त्याग दिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 दिसम्बर 2000

सं० ए०-39013/1/2000-प्रशा०-1-राष्ट्रपति एतद्वारा श्री सुप्रीता एस० किरण कर्मचारी कोड सं० 4135 का राष्ट्रीय

सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक सी, के पद से त्यागपत्र दिनांक 22-12-2000 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

सं० ए०-39013/1/2000-प्रशा०-1-महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, कर्मचारी कोड सं० 3081 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर एस० बी० के पद से त्यागपत्र दिनांक 22-12-2000 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

दिनांक 29 दिसम्बर 2000

सं० ए-39013/1/2000-प्रशा०-1-राष्ट्रपति एतद्वारा श्री बी० श्याम रेड्डो कर्मचारी कोड सं० 882, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक अधिकारी के पद से त्यागपत्र दिनांक 29-12-2000 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

विधि, श्याम और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी, 2000

सं० ए 12026/7/2000-प्रशा०-1 (वि० वि०) : राष्ट्रपति जी, कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव (इनसाइट) पद पर कार्यरत श्री एम० दास को विधि, श्याम एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग में 26 दिसम्बर, 2000 की पूर्वार्द्ध से, उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पूतम जुनेजा, उप सचिव

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

सं० ए 12023/17/99-प्रशा-1 राष्ट्रपति केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सहायक श्री आर० सी० पसखोला को 20 अक्तूबर, 2000 के अपराह्न से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यपारिक व्यवहार आयोग (एम०आर०टी०पी०) में कोर्ट मास्टर के रूप में नियुक्त करते हैं।

सतपाल, अवर सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2000

सं० पी० एफ० जी० (620)/2000-प्रशा०-II-सीओ भर्ती द्वारा यू० पी० एस० सी० के माध्यम से उनके चयन पर राष्ट्रपति श्री महेश कुमार प्रेमचन्द भाई शाह को 1-11-2000 (पूर्वाह्न) से भारतीय कम्पनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. "भारतीय कम्पनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री महेश कुमार प्रेमचन्द भाई शाह ने 1-11-2000 से अगले आदेश होने तक के लिए शासकीय समापक, कलकत्ता के कार्यालय में उप निदेशक (तकनीक) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

डी० पी० सैनी, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2000

सं० पी० एफ० जी० (442)/84-प्रशा०-II-उनके स्थानांतरण पर भारतीय कम्पनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (विधि शाखा) अधिकारी, श्री पी० जी० राव ने 15-5-2000 की पूर्वाह्न से प्रादेशिक निदेशक (एन० आर०), कानपुर के कार्यालय में उप निदेशक (जांच) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. केन्द्रीय सरकार ने भारतीय कम्पनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (विधि शाखा) अधिकारी श्री पी० जी० राव को 19-5-2000 की (अपराह्न) से अगला आदेश होने तक के लिए प्रादेशिक निदेशक (डब्ल्यू० आर०), मुम्बई के कार्यालय में उप निदेशक (तकनीक) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

डी० पी० सैनी, अवर सचिव

सं० पी० एफ० जी० (535)/96-प्रशा० II-उनके स्थानांतरण पर भारतीय कम्पनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री डी० बंदोपाध्याय ने 31-5-2000 की अपराह्न में प्रादेशिक निदेशक, कलकत्ता के कार्यालय में उप निदेशक (जांच) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय कम्पनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री डी० बंदोपाध्याय को 31-5-2000 की अपराह्न से अगला आदेश होने तक के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता के कार्यालय में उप कम्पनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

डी० पी० सैनी, अवर सचिव

दिनांक 6 दिसम्बर 2000

सं० पी० एफ० जी० (583)/97-प्रशा० II-भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेखा शाखा) अधिकारी श्री नवरंग सैनी ने अपना स्थानांतरण होने पर 6-10-2000 के अपराह्न में कम्पनी रजिस्ट्रार, हैबराबाद के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेखा शाखा) अधिकारी श्री नवरंग सैनी को 9-10-2000 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कम्पनी रजिस्ट्रार बिल्ली के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

डी० पी० सैनी, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2001

सं० I-45014/9/2000-आई० पी० एस०-I-भारतीय पुलिस सेवा 2000 की तमिलनाडु संवर्ग की अधिकारी सुश्री सोलन बर्मा को अब सभी प्रयोजनों के लिए श्रीमती सोलन मिश्रा के नाम से जाना जाएगा।

आर० के० मित्रा, उप सचिव

सं० I-1812/14/2000-आई० पी० एस०-I-राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर एवं त्रिपुरा संवर्ग में आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा से स्थाई करते हैं।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख
1	श्री डब्ल्यू रीता कुमार सिंह	29-12-96
2	श्री एन० किपगेन	11-01-97
3	श्रीमती आर० के० राघेसाना देवी	24-02-99

आर० के० मित्रा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक

सं० ए-32013/3/2000-प्रशा० 1(1)-राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को जिनके नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वर्ष 1997 की निदेशक की उपयुक्तता सूची में शामिल है और जो गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को निदेशक के रूप में दिनांक 27 सितम्बर 2000 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री एम० पी० सज्जानी	28-11-2000
2	श्रीमती जमा सोयल	25-08-2001

ऊपर वर्गीकृत गैर-अधिकारियों की नियुक्ति गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में उनके नामों के सम्मुख अंकित अवधि तक होगी तथापि, वे इस पद पर उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी अपने आदेश तक, जो कि उपरोक्त स्थिति से पूर्व प्रस्ताव पश्चात् हो सकते हैं, कार्य करते रहेंगे।

पी० बी० शिवरामन, जवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2001

शुद्धि पत्र

सं० I-1412/22/99-आई पी एस IV—इस मंत्रालय की 20 अप्रैल, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना में क्रमांक 17 पर 52 आर० आर० (1999 बैच) के परीक्षार्थी आर० पी० एस० अधिकारी श्री कपिल सिंह की नियुक्ति की तारीख को 20-9-1999 (पूर्व) की जगह 23-09-1999 (पूर्व) पढ़ा जाए।

जे० बी० कौशिक, डेस्क ऑफिसर

सं० I-18011/10/2000-आई पी एस IV—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिबीसा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रस्तावित अधिकारियों का प्रयोग करते हुए एच० एम० संवर्ग में अर्जित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके जन्म के आगे वर्गीकृत तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
सर्वश्री		
1.	सागर प्रीत (आर० आर० 1997)	24-8-1999
2.	हरगोविन्द सिंह (आर० आर० 1997)	25-8-1999
3.	शरव अग्रवाल (आर० आर० 1997)	25-8-1999
4.	अतुल कटियार (आर० आर० 1997)	17-9-1999
5.	विमला विजय (आर० आर० 1997)	25-8-1999
प्रसाध		

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2001

सं० 14015/16/2000-अ० भा० से० I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप नियम (1) के साथ संशोधित भारतीय प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण) विनियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रस्तावित अधिकारियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, हरियाणा राज्य सिविल सेवा के सदस्यों सर्वश्री (1) ओम प्रकाश इंदूरा (2) आर० एस० पून (3) एम० एस० मोहरावत (4) ओ० पी० लंगायन (5) श्रीमती सुपर्णा दहिया (6) चन्द्र प्रकाश (7) सि० आर० राणा (8) राजवीर सिंह तथा (9) सुभाष चन्द्र को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिबीसा पर तत्कालीन

प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (सर्वग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन हरियाणा संवर्ग में आवंटित करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति, केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण चण्डीगढ़ बैच में श्री एम० के० मिश्रा द्वारा वायर ओ० ए० संख्या 840/एच० आर०/91 श्री जे० पी० संगवान द्वारा वायर ओ० ए० संख्या 963/सि० एच०/97 श्री बी० के० वर्मा द्वारा वायर ओ० ए० संख्या 491/एच० आर०/2000 और श्री अभय सिंह यादव द्वारा वायर ओ० ए० संख्या 874/सि० एच०/2000 तथा सब लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वायर सि० ए० संख्या : 2141/99 के अंतिम निर्णय के अधीन है।

आर० वैद्यनाथन, जवर सचिव

सं० 14015/16/2000-अ० भा० से० I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने, चयन समिति द्वारा 14.12.2000 को आयोजित अंती बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा हरियाणा संवर्ग में 1998 के दौरान 2 रिक्तियाँ और 1999 के दौरान 4 तथा 2000 के दौरान 4 मौजूदा रिक्तियों हेतु तैयार की गई हरियाणा राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों वाली प्रवर सूची को अनुमोदित कर दिया है:—

क्रम सं०	प्रवर सूची (वर्ग)	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1	1998	वीरेन्द्र कुमार	16-01-1950
2	1999	ओम प्रकाश इंदूरा (अ० जा०)	15-12-1943
3	1999	आर० एस० पून	05-03-1956
4	1999	एम० एस० मोहरावत	22-09-1955
5	1999	वीरेन्द्र कुमार	16-01-1950
6	1999	ओ० पी० लंगायन (अ० जा०)	21-01-1951
7	1999	श्रीमती सुपर्णा दहिया	25-10-1957
8	2000	चन्द्र प्रकाश	20-10-1957
9	2000	सि० आर० राणा	05-10-1955
10	2000	राजवीर सिंह	01-01-1957
11	2000	वीरेन्द्र कुमार	16-01-1950
12	2000	सुभाष चन्द्र	03-02-1957

क्रम सं० 1, 5, और 11 व्यक्ति को उनके विशिष्ट व्यक्तिगत अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निर्णय के अधीन प्रवर सूची में अन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

2. उपर्युक्त प्रवर सूचियाँ सर्वश्री एम० के० मिश्रा, जे० पी० एस० संगवान, अभय सिंह यादव तथा वी० के० वर्मा द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण चण्डीगढ़ बैच में वायर क्रमांक: ओ० ए० संख्या 840 एच० आर०/91, 963/सि० एच०/97, 874/सि० एच०/2000 तथा 491 एच० आर०/2000 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संघ लोक सेवा आयोग में वायर सिविल अपील संख्या 2141/99 के अंतिम निर्णय के अधीन है।

आर० वैद्यनाथन, जवर सचिव

विदेश मंत्रालय

(समन्वय प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर, 2000

सं० ए०/3210/4/97—भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति श्री कृष्ण कांत को, उनके उपराष्ट्रपति के वर्तमान पद की अवधि के दौरान, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के अध्यक्ष पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विद्यासागर वर्मा
संयुक्त सचिव (समन्वय)

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण

नई दिल्ली 110001, दिनांक 27 दिसम्बर 2000

सं० 1/5/2000-प्रशासन—राष्ट्रपति कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में स्थायी निजी सचिव श्री आर० डी० शर्मा को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण में 10000-325-15200 रुपए के वेतनमान में, दिनांक 26 दिसम्बर 2000 के पूर्वाह्न से आरम्भ में एक वर्ष या अगले आदेश, जो भी पहले घटित हो, के लिए मुख्य निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

हनवन्त किशोर, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2000

सं० 1/9/99-एन० एस० (1):—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर श्री अनिल भट्टाचार्य, उप-राष्ट्रीय बचत आयुक्त को दिनांक 29-11-2000 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक स्थानापन्न क्षमता में 14300-400-18300 रुपए के वेतनमान में संयुक्त राष्ट्रीय बचत आयुक्त नियुक्त करते हैं।

सूर्या मैती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2000

सं० ए० 12011/5/2000-प्रशासन-1—इस विभाग की दिनांक 08-05-2000 के अधिसूचना संख्या 12011/1/90-प्रशासन-1 के अनुक्रम में तथा राजभाषा विभाग के दिनांक 22-9-2000 के कार्यालय आपन संख्या 05-11-94-रा० भा० (सेवा) के अनुसरण में श्री एस० के० चौधरी, बरिष्ठ हिन्दी अनुवादक की सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर उनकी तदर्थ नियुक्ति को 31-03-2001 तक की अवधि के लिए अथवा इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जाता है।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उपरोक्त अधिकारी को सहायक निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में पदोन्नति के लिए दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस० सौम्वर राजन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2000

सं० एफ० 1/3/96-करेंसी (iii)—इस मंत्रालय की दिनांक 20 अक्तूबर, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति श्री पी० वाई० नागरे, सुरक्षा अधिकारी, भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक को 3 नवम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 10,000-15,2000 रुपए के वेतनमान में भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय में बरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न हैसियत में प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

श्री नागरे की भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय में बरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति पर नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुम्बई के समक्ष लम्बित मूल आवेदन-पत्र सं० 317/96-बी० टी० कुकरेजा बनाम भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय और अन्य में पारित किए जाने वाले आगामी अंतिम आदेश के अधीन की जाएगी।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 19 दिसम्बर 2000

एफ संख्या 1/7/2000-करेंसी (ii.)—अधिवक्ता की आयु प्राप्त करने पर, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड़ में मुख्य क्रय और भंडार अधिकारी श्री एस० आर० शर्मा को दिनांक 30-11-2000 के अपराह्न से मुख्य क्रय और भंडार अधिकारी के पद के कार्यभार से मुक्त किया जाता है। उस तारीख से उनका नाम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय की नामावली से हटा दिया गया है।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 20 दिसम्बर 2000

एफ संख्या 1/16/2000-करेंसी (iii.)—अधिवक्ता की आयु प्राप्त करने पर, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय अस्पताल नासिक रोड़ में मद्रन श्रीमती एस० एस० शिवरैकर को दिनांक 31-10-2000 के अपराह्न से मद्रन के पद के कार्यभार से मुक्त किया जाता है। उनका नाम उस तारीख से भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, अस्पताल की नामावली से हटा दिया गया है।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2000

सं० ए० 12011/15/2000-प्रशा० 2,—इस विभाग की दिनांक 07 नवम्बर, 1997 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 22400-325-24500-र० के वेतनमान में, स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर, बरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के पद पर डा० अरविन्द विरमानी को नियुक्ति को दिनांक 06 नवम्बर, 2000 से छः माह की अवधि के लिए आगे बढ़ाते हैं।

आर० एल० यादव, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2001

सं० 6/9/00-डी० आर० टी०—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, न्यायमूर्ति शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, जज, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अपना कार्य ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 3 जनवरी, 2001 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

यू० के० सिन्हा, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2001

सं० ए० 19012/62/80-स्थापना—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री के० के० मंगल, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग 31 दिसम्बर, 2000 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस० के० बतरा, अवर सचिव

सं० ए० 19011/200/98-स्थापना—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री अरुण चन्द्र, उप सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग 31 दिसम्बर, 2000 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस० के० बतरा, अवर सचिव

महा लेखा नियंत्रक

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2000

सं० ए० 22012/1/99-2000/एम० एफ०-सी० जी० ए०/प्रसासन—राष्ट्रपति, श्री बी० एस० थपलियाल (भा० सि० ले० से०-1968) को महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली में 19 दिसम्बर, 2000 पूर्वाह्न से अपर महालेखा नियंत्रक नियुक्त करते हैं।

सिद्धार्थ शर्मा,

सहायक महालेखा नियंत्रक (प्रसासन)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2000

सं० 32/2000 (ए-19011/23/2000-ई-1)—वाणिज्य विभाग में दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 के पूर्वाह्न से उप सचिव के पद पर श्री शशांक प्रिया, आई० सी० एंड सी० ई०

एस० (90) की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 30/2000 के संदर्भ में।

2. उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित श्री शशांक प्रिया आई० सी० एंड सी० ई० एस० के बीच को "1990" की बजाय "1988" पढ़ा जाए।

एच० आर० जस्सल, अवर सचिव

दिनांक 14 दिसम्बर 2000

सं० 34/2000 (ए-19011/28/2000-ई-1)—राष्ट्रपति द्वारा श्री आर० गोपालन, आई० ए० एस० (तमिलनाडु: 76) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 से अगले आदेशों के होने तक संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एच० आर० जस्सल, अवर सचिव

ई० पी० जेड० अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2000

सं० 1/6/96-बी० ई० पी० जेड०—राष्ट्रपति श्री पी० पुरुषोत्तम, निवारक अधिकारी, सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, विशाखापत्तनम को विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम नियमित संसाधन जोन के कार्यालय में रुपए 6500-10,500/- के वेतनमान में 3-11-2000 से 15-5-2003 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर मूल्यांकक के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी० रामाकृष्णन, अवर सचिव

दिनांक 29 नवम्बर 2000

सं० ए० 5(4)/2/2000-ई० पी० जेड०—राष्ट्रपति श्री ए० सोमसुन्दरम, सहायक अनुभाग अधिकारी, सूचना एवं पर्यटन विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई को मद्रास निर्यात संसाधन जोन, मद्रास में रुपए 6500-10,500/- के वेतनमान में 13-11-2000 (पूर्वाह्न) से 3 वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर सम्पदा प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी० रामाकृष्णन, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2001

सं० 5/3/2000-कार्मिक-1/50/सं० ड-16/2000—सं० 13/2000, दिनांक 5-12-2000 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री एच० सी० डबराल और श्री राज कमल की पदोन्नति की नोशनल तारीख 24-12-96 होगी।

ए० के० एम० चाकणकर,
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110-016, दिनांक 15 दिसम्बर, 2000

सं० 2/31/2000-प्रशा०/डी० एस० आई० आर०-
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं० 22/6/2000-
ई ओ (एस एम I) दिनांक 7-11-2000 के अनुसार
में राष्ट्रपति श्री सुधीर कुमार भा० प्र० से० (उत्तर प्रवेश: 78)
को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 18400-
500-2400 रुपए के वेतनमान में 12 दिसम्बर, 2000
के पूर्वार्द्ध से तत्पश्चात् आगामी आदेशों तक, 5 वर्ष की सामान्य
सेवावधि के लिए संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

गुरभीन सिंह, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 दिसम्बर 2000

सं० ए32012/2/98-पी० 1(1)-सक्षम प्राधिकारी
के अनुमोदन और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के यू० ओ०
संख्या 4039/2000-स्था० (डी) दिनांक 28-11-2000 के
अनुसार श्री ओम प्रकाश जी 6500-200-10,500/- रुपए के
वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी
(पर्यावरण) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि 01-01-
2001 से 30-06-2001 तक, या नियमित पदाधिकारी के
कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. श्री ओम प्रकाश जी को उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति से
अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) के पद पर नियमित नियुक्ति
का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एस० एस० एस० सर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2000

सं० ए38012/9/2000-सी० एच० एस० IV-केन्द्रीय
स्वास्थ्य सेवा के समान्य ह्यूटी उपसंस्था की वरिष्ठ प्रशासकीय
ग्रेड स्तर की अधिकारी डा० (श्रीमती) ए० के० भसीक ने अधि-
वर्धिता-वय प्राप्त करते पर अपनी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप
30 दिसम्बर, 2000 के अपराह्न से पद का कार्यभार छोड़
दिया।

एन० के० पुष्पाकरन, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2001

सं० 30-3/2000-पी० पी०-II-इस विभाग के संबद्ध
कार्यालय, पादप रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय में
सहायक निदेशक (कीट विज्ञान), श्री एफ० बिबेरा अधिवर्धिता

की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए
हैं और उन्होंने दिनांक 30-11-2000 (अपराह्न) से अपना
पदभार त्याग दिया है।

रानी माखोजानी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2000

सं० 27-1628/98-स्था०-1-राष्ट्रपति कृषि एवं
सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव श्री
वी० के० भटनागर को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर
31 दिसम्बर, 2000 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-
निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

पी० विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 दिसम्बर 2000

सं० 19011/341/94-स्था०-5-राष्ट्रपति, श्री राजेश्वर
सिंह, सहायक निदेशक (फसल) (7500-12000 रु०) जो
इस समय इस विभाग में सस्य वैज्ञानिक (10,000-15,200
रु०) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं को अपनी
अधिवर्धिता की आयु पूरी कर लेने पर 31-12-2000
(अपराह्न) से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते
हैं।

पी० विजय कुमार, अवर सचिव

सं० 19011/11/2000-स्था०-5-राष्ट्रपति, कृषि एवं
सहकारिता विभाग में कार्यरत डॉ० एम० के० माथुर, अवर
आयुक्त (फसल) (14300-18300 रु०) को अपनी अधिवर्धिता
की आयु पूरी कर लेने पर 31-12-2000 (अपराह्न) से
भारत सरकार की सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते
हैं।

पी० विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2000

सं० ए-19012 (112)/4/97-आ० प्र०-कृषि एवं
सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के एक संबद्ध कार्यालय, कृषि
लागत एवं मूल्य आयोग में अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति
के कार्यकाल को पूरा करने पर, प्रोफेसर अभिजीत सेन ने
26 दिसम्बर, 2000 की अपराह्न से पदभार त्याग दिया
है।

मुकुमार, अवर सचिव

सं० ए-19014 (12)/1/98-जा० प्र०—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के दिनांक 12-12-2000 के आदेश संख्या 12019/1/99-आई० एस० एस० के अनुसरण में, भारतीय सांख्यिकी सेवा के जे०-III अधिकारी श्रीमती शीलजा शर्मा, जिन्हें कृषि भवनायक, कृषि एवं सहकारिता विभाग के सम्बद्ध कार्यान्वयन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में अनुसंधान उप निदेशक के पद पर 01 अगस्त, 2000 तक तैनात किया गया था, को प्रतिनिधित्व का पदवि आगामी आदेशों तक बढ़ाई जा रही है।

मुकुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2001

सं० ए-19012/12/2000-ई० ए०—कृषि एवं सहकारिता विभाग में स्थानांतरण होने पर तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के दिनांक 18-12-2000 के कार्यालय आदेश संख्या 49/2000-स्था० 1-ई० एस० के अनुसरण में भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी श्री आसिम सरकार ने 20-11-2000 (पूर्वाह्न) से जर्म एवं सांख्यिकी निदेशालय में सहायक आर्थिक सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

मुकुमार, अवर सचिव

सं० ए-19012/13/2000-ई० ए०—टैरिफ आयोग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आनी कार्य मुक्ति पर तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के दिनांक 18-12-2000 के कार्यालय आदेश सं० 50/2000-स्था० 1-ई० एस० के अनुसरण में भारतीय अर्थ सेवा में अधिकारी डा० बाई० उषल ने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में दिनांक 28-11-2000 (पूर्वाह्न) से आर आर्थिक सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

मुकुमार, अवर सचिव,

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 दिसम्बर 2000

सं० 13-15/2000-एम०पी०जी०—भारतीय डाक सेवा ग्रुप "क" के निम्नलिखित अधिकारी, सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप, सरकारी सेवा से दिनांक 30-11-2000 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

क्रम सं० अधिकारी का नाम वर्तमान तैनाती

सर्वश्री/श्री

- | | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | एच० मिश्र | उर्बासा सकिल |
| 2. | एच० जी० अय्यंगर | कनाटक सकिल |
| 3. | एस० आर० विवेकी | गुजरात सकिल |

आर० सी० शर्मा

सहायक महा निदेशक (एम जी पी)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2001

सं० 97/ई(जी आर)/1/32/1—राष्ट्रपति निम्नलिखित परीबीआधीनों (प्रोबेशनरों) को भारतीय रेल कार्मिक सेवा में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख में नियुक्त करने हैं :—

क्रम सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
----------	-----	------------------------------

(सर्वश्री/श्री)

- | | | |
|----|------------------------------|---------|
| 1. | गुरेश चन्द्र श्रीवास्तवा | 1-9-97 |
| 2. | दीपक कुमार गुप्ता | 4-9-97 |
| 3. | नवीन अग्रवाल | 4-9-97 |
| 4. | सूर्य प्रकाश | 1-9-97 |
| 5. | आनन्द मधुकर | 4-9-97 |
| 6. | मधुप व्यास | 1-9-97 |
| 7. | सिद्धार्थ कटि | 4-9-97 |
| 8. | एस० वी० एस० सत्यनारायण पल्लु | 25-8-97 |

मनीष कुमार,

संयुक्त निदेशक स्था० (जी आर)

सं० 98/जी आर/1/33/1—राष्ट्रपति रेलवे सुरक्षा बल में निम्नलिखित परीबीआधीनों (प्रोबेशनरों) को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करने हैं :—

क्रम सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
----------	-----	------------------------------

(सर्वश्री/श्री)

- | | | |
|-----|----------------------------|----------|
| 1. | संतोष कुमार दुबे | 21-12-98 |
| 2. | सूर्य प्रकाश | 7-9-98 |
| 3. | ज्योति कुमार सतीजा | 7-9-98 |
| 4. | अमरेश कुमार | 7-9-98 |
| 5. | आनन्द विजय (अनन्तिम) | 21-12-98 |
| 6. | विजय कुमार सिंह | 21-12-98 |
| 7. | राजीव कुमार यादव (अनन्तिम) | 21-12-98 |
| 8. | विवेक सागर | 21-12-98 |
| 9. | संतोष एन० चन्द्रन | 4-3-99 |
| 10. | पृथ्वी राज मीणा | 21-12-98 |
| 11. | भुक्का रामकुण्ड (अनन्तिम) | 4-3-99 |

मनीष कुमार,

संयुक्त निदेशक स्था० (जी आर)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2001

सं० 97/ई (जी आर) 1/33/1—राष्ट्रपति निम्नलिखित परिवीक्षाधीयों (प्रोवेशनरों) को रेलवे सुरक्षा बल में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
(सर्वश्री)		
1.	प्रदीप कुमार गुप्ता	25-8-97
2.	युगल किशोर जोशी (अनसिम)	4-9-97
3.	बी० वेंकटेश्वर राय	4-9-97
4.	बोहरा आलोक सुन्दरलाल	25-8-97
5.	सीरम द्विवेदी	25-8-97
6.	मो० साकिब	25-8-97
7.	रमा शंकर प्रसाद सिंह	4-9-97
8.	रमेश चन्द्र	4-9-97
9.	पालाकोडा रमेश	1-9-97

मनीष कुमार,
संयुक्त निदेशक, स्था (जी आर) रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

(स्था-1 अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2000

सं० ए-12026/3/2000-स्था-1—राष्ट्रपति इस मंत्रालय के विकास पक्ष में ग्रेड 1 ड्राफ्ट्समैन श्री जे० सी० बजाज को मंत्रालय के उसी पक्ष में 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में दिनांक 27-11-2000 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर मुख्य ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त करते हैं।

रीना सेठी, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(स्थापना-1 अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2000

सं० ए-12028/5/2000-स्था-1—राष्ट्रपति भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था समिति के कार्यालय सचिव श्री ए० वृष्णन्त कुमार को 13 दिसम्बर, 2000 (पूर्वाह्न) से 6500-10500 रु० के वेतनमान में अगले आदेशों तक सह-अध्यासनी आधार पर अथवा अगले आदेशों तक सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) [मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) वी० सी० खन्डेली] के प्रथम निजी सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

रीना सेठी, अवर सचिव

दिनांक 26 दिसम्बर 2000

सं० ए-12034/7/2000-स्था-1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/17/2000-ई० ओ० (एम एम-1) के अनुसरण में अवर सचिव स्तर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री पी० एस० राणा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में 27-11-2000 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अवर सचिव नियुक्त किया जाता है।

रीना सेठी अवर सचिव

सं० ए-12034/7/2000-स्था-1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/17/2000 ई० ओ० (एम एम-1) के अनुसरण में अवर सचिव स्तर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री ओ० पी० सरोदे को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में 1-12-2000 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अवर सचिव नियुक्त किया जाता है।

रीना सेठी, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2000

सं० 12/2/2000-प्रग० दो (खण्ड)—राष्ट्रपति, श्री वी० के० चौधरी की माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) के वैयक्तिक स्टाफ में 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में दिनांक 1-10-2000 से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री चौधरी की नियुक्ति, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) के कार्यकाल और उनके प्रसाद पयन्त होगी।

एच० जी० उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 28 दिसम्बर 2000

सं० 13/1/2000-प्रशासन-2—राष्ट्रपति, श्री सुधीर शर्मा, भा० प्र० से० (म० त्रि० 1975) को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 18400-500-22400 रु० के वेतनमान में दिनांक 21-12-2000 के पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री शर्मा की उपर्युक्त पद पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 21-12-2000 से पांच वर्ष होगा।

एच० जी० उप्रेती, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 3rd January 2001

No. A.22012/1/2001-PMA.—The President is pleased to appoint Shri A. S. Dulat, IPS (retired) as Officer on Special Duty in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 1st January 2001 on contract basis, until further orders.

P. K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 4th January 2001

No. RS/2(ii)/2000/1-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following officers in the cadre of Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Under Secretary/Pay & Accounts Officer in that Secretariat with effect from the forenoon of the 3rd January, 2001, until further orders.

1. Shri D. S. Rawat
2. Shri Rohtas
3. Shri Jagmohan Sundriyal (on pro-forma basis)
4. Shri Mom Raj Singh

2. The appointment of Shri Mom Raj Singh would be against the deputation vacancy of Shri Jagmohan Sundriyal, Under Secy.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/2(ii)/2000/2-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee Assistants in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer in that Secretariat with effect from the forenoon of the 3rd January, 2001, until further orders:—

1. Smt. Arpana Mendiratta
2. Shri Tirlok Nath Pandey
3. Shri Rakesh Prasad
4. Smt. Sangeeta Kishore
5. Shri Rajiva Srivastava
6. Shri Rakesh Nalhani
7. Shri K. N. Earendra Kumar

2. The Chairman Rajya Sabha has also been pleased to appoint the following Senior Executive/Committee Assistants in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer against the deputation chain vacancy of Shri Jagmohan Sundriyal, Under Secretary and leave vacancy of Smt. Gayatri Kanth, Executive Officer, respectively with effect from the forenoon of the 3rd January, 2001, until further orders:—

1. Shri Dinesh Kumar Juneja
2. Shri Shashi Bhushan

3. Shri Vidya Sagar Prasad Singh and Shri Swarabji B, who were earlier appointed to officiate in the cadre of Legislative/Executive Committee/Protocol Officer against the leave vacancy of Smt. Gayatri Kanth Executive Officer and deputation vacancy of Shri Jagmohan Sundriyal, Executive Officer respectively have now been appointed on a regular basis with effect from the forenoon of the 3rd January, 2001 until further orders.

4. The above appointments would be subject to the orders of Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 21st December 2000

No. PF.1713(3)/AN-IGN-4513/2000.—The Speaker is pleased to allow Shri T. S. Samuel, Assistant Director (Security) in scale Rs. 10000-15200/- to take charge of the post of Deputy Director (Security) with effect from 19th December, 2000 until further orders.

2. While holding the charge, Shri T. S. Samuel will draw special pay as per the provisions under FR.35 in addition to their grade pay in the grade of Assistant Director (Security).

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

No. PF.1712(3)/AN-IGN-4514/2000.—The Speaker is pleased to appoint Shri Khim Chand Singh, Security Officer in scale Rs. 8000-13500/- to the post of Assistant Director (Security) in the scale Rs. 10000-325-15200/- with effect from 19th December, 2000 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

The 1st January 2001

No. PF.2273(3)/AN-IGN-4512/2000.—The following persons have satisfactorily completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer:—

1. Shri Hulasi Ram
2. Shri Harish Chander-II
3. Shri Rajesh Ranjan Kumar
4. Shri Raju Srivastava
5. Shri P. C. Choudha
6. Smt. Mamta Kemwal
7. Shri Kusal Sarkar
8. Shri Mool Chand

2. This is in continuation of Notification No. GN 4248/98 dated 16th December, 1998.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

No. PF.2782(3)/GN-4522/AN-I/2001.—On attaining the age of superannuation, Dr. A. K. Pandey, IAS (BH: 65), Additional Secretary in Lok Sabha Secretariat on deputation basis, has retired from service with effect from the afternoon of 31st December, 2000.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

The 2nd January 2001

No. F.15/10/AN-I/GN-4520/2000.—Consequent upon their selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination held on 23rd, 24th & 25th June, 2000 and personal interview held on 12th October, 2000 by Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint the following persons to the grade of Executive Legislative/Committee/Protocol Officer in scale Rs. 8000-275-13500/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 21st December, 2000 until further orders:

1. Shri Ram Kumar Suryanarayanan
2. Shri Dhiraj Kumar

2. The above mentioned persons will be on probation in the grade of Executive Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 21st December, 2000 upto 20th December, 2001.

3. Their inter-se-seniority in the grade of Executive/Legislative Committee/Protocol Officer will be regulated on the basis of new seniority orders being finalised and which will be issued in due course with retrospective application.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd January 2001

No. A-19011/1/2001-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri S. Sundararajan, RAS(66) as Officer on Special Duty in the pay scale of Rs. 26,000 - (fixed) in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 1st January, 2001 until further orders.

V. K. GAUBA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 18th December 2000

No. F.6(1786)/99-Adm.I.—In pursuance of the Ministry of Statistics & Programme Implementation's Order No. 12015/3/99-ISS dated 8-6-2000, Shri Guriraj Narayan, JAG officer of ISS and Deputy Adviser Planning Commission is relieved of his duties w.e.f. 18-12-2000 (A/N) to join the Central Water Commission, New Delhi.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 1st January 2001

No. F.6(1701)/97-Adm.I.—Consequent on his appointment as Secretary in the Deptt. of Official Language, Shri K. B. Saxena, IAS (BH: 64) has relinquished charge of the Office of Principal Adviser, Planning Commission w.e.f. 1-1-2001 (F/N).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 22nd December 2000

No. A-39013/1/2000-Adm.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Vuppala S. Kiran, Emp. Code No. 4135, from the post of Scientist 'C', National Informatics Centre Headquarters, New Delhi, with effect from 22-12-2000 (A/N) and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Dy. Director

No. A-39013/1/2000-Adm.I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Narendra Kumar, Emp. Code No. 3061, from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. SB, National Informatics Centre Headquarters, New Delhi, with effect from the afternoon of 22-12-2000 and he is relieved of his duties from the same date.

SHYAM SUNDER, Dy. Director

The 29th December 2000

No. A-39013/1/2000-Adm.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri B. Brahma Reddy, Emp. Code No. 882, from the post of Scientist 'E', National Informatics Centre Headquarters, New Delhi, with effect from 29-12-2000 (A/N) and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Dy. Director

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
LEGISLATIVE DEPARTMENT

New Delhi, the 2nd January 2001

No. A.12026/7/2000-Adm.I(I.D.)—The President is pleased to appoint Shri M. Das, CSS, Deputy Secretary (in situ), Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture as Deputy Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs with effect from the forenoon of the 26th December, 2000 for a period of seven years from the date of taking over charge of the post and until further orders.

POONAM JUNEJA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 4th December 2000

No. A-12023/17/99-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri R. C. Pasbala, Assistant in the Central Administrative Tribunal as Court Master in the Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Commission on deputation basis for a period of three years with effect from the afternoon of Oct. 20, 2000 or until further orders whichever is earlier.

SAT PAL, Under Secy.

New Delhi, the 4th December 2000

No. PFG (620)/2000-Adm. II.—On his selection through UPSC by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Mahesh Kumar Premchand Bhai Shah in the Senior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 01-11-2000 (F/N).

2. Shri Mahesh Kumar Premchand Bhai Shah, Senior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service has assumed charge of the post of Deputy Director (Technical) in the Office of Official Liquidator, Calcutta with effect from the forenoon of 01-11-2000, until further orders.

D. P. SAINI, Under Secy.

The 5th December 2000

No. PFG (442)/84-Adm. II.—On his transfer, Shri P. G. Rao, a Senior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished charge of the post of Deputy Director (Inspection) in the Office of Regional Director (NR), Kanpur in the forenoon of 15-5-2000.

2. The Central Government have appointed Shri P. G. Rao, a Senior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Deputy Director (Tech) in the Office of Regional Director (WR), Mumbai with effect from the forenoon of 19-05-2000, until further orders.

D. P. SAINI, Under Secy.

No. PFG (535)/96-Adm. II.—On his transfer, Shri D. Bandopadhyay, a Senior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished charge of the post of Deputy Director (Inspection) in the Office of Regional Director, Calcutta in the afternoon of 31-05-2000.

2. In exercise of the power conferred by Sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri D. Bandopadhyay, a Senior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Deputy Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Calcutta with effect from the afternoon of 31-05-2000, until further orders.

D. P. SAINI, Under Secy.

The 6th December 2000

No. PFG (563)/97-Adm. II.—On his transfer, Shri Navrang Saini, a Junior Administrative Grade (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished charge of the post of Registrar of Companies, Hyderabad in the afternoon of 06-10-2000.

2. In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Navrang Saini, Junior Administrative Grade (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Registrar of Companies, Delhi with effect from the forenoon of 09-10-2000, until further orders.

D. P. SAINI, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd January 2001

No. 1-45014/9/2000-IPS-I.—Ms. Sonal Verma, an Indian Police Service Officer of 2000 batch, borne on the Cadre of Tamil Nadu, shall henceforth be known and recognised as Smt. Sonal Mishra, for all purposes.

R. K. MITRA, Dy. Secy.

No. 1-18012/14/2000 IPS. I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Manipur & Tripura, with effect from the dates indicated against each :—

S. No., Name of the officer and Date of confirmation in the IPS

1. Shri W. Mecnakumar Singh—29-12-1996
2. Shri N. Kipgen—11-01-1997
3. Smt. R. K. Radhesana Devi—24-02-1999

R. K. MITRA, Dy. Secy

New Delhi, the

No. A-32013/3/2000-Ad. I (A)—The President is pleased to appoint the following Central Secretariat Service Officers whose names are included in the Central Secretariat Service Director's Suitability List for the year 1997 and who are working as Deputy Secretaries in the Ministry of Home Affairs as Directors with effect from the forenoon of 27th September, 2000 :—

Sl. No., Name of the Officer and Period of Tenure

- (1) Smt. Uma Goel—Upto 25-08-2001
- (2) Shri M. P. Sajani—Upto 28-11-2001

2. The appointment of the above mentioned Officers as Directors in the Ministry of Home Affairs will be upto the date of expiry of their tenure as indicated against their names. However, notwithstanding the tenure as indicated against their names, they will continue on the post until further orders, whichever may be earlier or later than the date of expiry of their tenure.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th January 2001

No. 1-14012/22/99-IPS. IV.—In this Ministry's Notification of even number dated 20th April 2000, the date of appointment of Shri Rupinder Singh, IPS Probationer of 52 RR (1999 batch), at Serial No. 17 may please be read as 23-09-1999 (F/N) instead of 20-09-1999 (F/N).

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

No. 1-18011/10/2000-IPS. IV.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service, borne on the cadre of AGMU with effect from the date mentioned against their names.

S. No., Name of the officer and Date of confirmation

S/Shri

1. Sagar Preet (RR : 1997)—24-08-1999
2. Hargobinder Singh (RR : 1997)—25-08-1999
3. Sharad Agarwal (RR : 1997)—25-08-1999
4. Atul Katiyar (RR : 1997)—17-09-1999
5. Lingala Vijaya Prasad (RR : 1997)—25-08-1999

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 4th January 2001

No. 14015/16/2000-AIS (I).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri (1) Om Parkash Indora, (2) R. S. Doon, (3) M. S. Sehrawat, (4) O. P. Langayan, (5) Smt. Suparbhia Dahiya, (6) Chander Prakash, (7) C. R. Rana, (8) Rajbir Singh and (9) Subash Chandra, members of the State Civil Service of Haryana to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the cadre of Haryana under sub-rule 1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Carde) Rules, 1954.

2. The appointment of the above mentioned officers to the Indian Administrative Service is subject to the final outcome of OA Nos. 840/HR/91, 963/CH/97, 491/HR/2000 and 874/CH/2000 filed by Shri M. K. Midha, Shri J. P. S. Sangwan, Shri V. K. Varma and Shri Abhay Singh Yadav respectively, before the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench and Civil Appeal No. 21/99 filed by UPSC Vs. Chamanlal Lakhapal before the Hon'ble Supreme Court.

K. VAIDYANATHAN, Under Secy.

No. 14015/16, 2000-AIS (I).—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 1998, 1999 and 2000 for Haryana containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Haryana prepared by the Selection Committee in its meeting held on the 14-12-2000, towards filling up two vacancies during 1998, four vacancies during 1999 and four vacancies during 2000, in the Indian Administrative Service Haryana Cadre.

S. No., Select List Year, Name of the officer and Date of Birth

(S/Shri)

- *1. 1998 Virender Kumar—15-01-1950
2. 1988 Om Prakash Indora (SC)—15-12-1943
3. 1999 R. S. Doon—05-03-1955
4. 1999 M. S. Sehrawat—22-09-1955
- *5. 1999 Virender Kumar—16-01-1950
6. 1999 O. P. Langayan (SC)—21-01-1951
7. 1999 Smt. Suparbhia Dahiya—25-10-1957
8. 2000 Chander Prakash—10-10-1957
9. 2000 C. R. Rana—05-10-1955
10. 2000 Rajbir Singh—01-01-1957
- *11. 2000 Virender Kumar—16-01-1950
12. 2000 Subash Chandra—03-02-1957

*The name at S. Nos. 1, 5 & 11 has been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him.

2. The above select lists are subject to the final outcome of OA Nos. 840/HR/91, 963/CH/97, 491/HR/2000 and 874/CH/2000 filed by Shri M. K. Midha, Shri J. P. S. Sangwan, Shri V. K. Varma and Shri Abhay Singh Yadav, respectively, before the Hon'ble Central Administrative Tribunal Chandigarh Bench and Civil Appeal No. 2141/99 filed by UPSC Vs. Chamanlal Lakhapal before the Hon'ble Supreme Court.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(COORDINATION DIVISION)

New Delhi, the 29th December 2000

No. AA/3210/4/97.—The President of India is pleased to appoint Shri Krishan Kant, Vice-President of India, to hold the office of President of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the duration of his present term as Vice-President.

VIDYA SAGAR VERMA, Jt. Secy. (Coordination)

APPELLATE AUTHORITY FOR INDUSTRIAL AND
FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 27th December 2000

F. No. 1/5/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Sh. R. D. Sharma, a permanent Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Co-operation as Principal Private Secretary in the Appellate Authority for Industrial & Financial Reconstruction in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- initially for a period of one year with effect from the forenoon of 26th December, 2000 (F/N) or until further orders whichever is earlier.

HANWANT KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 27th December 2000

No. 1/9/99-NS (I).—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Anil Bhattacharya, Deputy National Savings Commissioner as Joint National Savings Commissioner in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 with effect from 29-11-2000 (F/N) in an officiating capacity until further orders.

SUKYA MAITI, Under Secy.

New Delhi, the 22nd December 2000

No. A. 12011/5/2000-Ad.1.—In continuation of this Department's Notification No. 12011/1/90-Ad. I dated 08-05-2000 and in pursuance of Department of Official Language's Office Memorandum No. 5/11/94-O.L. (S) dated 22-09-2000 the ad-hoc appointment of Shri S. K. Choudhary, Senior Hindi Translator, in the post of Assistant Director (O.L.L.) is continued for the period upto 31-03-2001 or till the post is filled up on a regular basis, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on the aforesaid officer any claim for promotion in the grade of Assistant Director (O.L.).

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

New Delhi, the 14th December 2000

F. No. 1/3/96-CY (III).—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 20th October, 2000, the President is pleased to appoint, until further orders, Shri P. Y. Nagare, Safety Officer, India Security Press, Nashik to officiate as Senior Safety Officer on promotion basis, as Senior Safety Officer in the India Security Press, Nashik Road, in the pay scale of Rs. 10,000—15200 with effect from 31st November, 2000.

The appointment on promotion of Shri Nagare as Senior Safety Officer in India Security Press, Nashik is subject to the further final order that may be passed in the Original Application No. 317/96.B-1. Kukreja vs. ISP & other pending before the Central Administrative Tribunal Mumbai.

S. P. VERMA, Under Secy.

The 19th December 2000

F. No. 1/7/2000-CY (III).—On attaining the age of superannuation, Shri S. R. Sharma, Chief Purchase and Stores Officer, India Security Press, Nashik Road, relinquished the charge of the post of Chief Purchase and Stores Officer on the afternoon of 30-11-2000. His name stands deleted from the rolls of India Security Press w.e.f. that date.

S. P. VERMA, Under Secy.

The 20th December 2000

F. No. 1/16/2000-CY (III).—On attaining the age of superannuation, Smt. S. S. Shivalkar, Matron, India Security Press Hospital, Nashik Road relinquished the charge of the post of Matron on the afternoon of 31-10-2000. Her name stands deleted from the rolls of India Security Press Hospital w.e.f. that date.

S. P. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 29th December 2000

No. A. 12011/15/2000-Admn. II.—In continuation of this Department notification of even number dated 07th November, 1997, the President is pleased to extend the appointment of Dr. Arvind Virmani as Senior Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, in the pay scale of Rs. 22400-525-24500 for a period of 06 months with effect from 06th November 2000 on transfer on deputation basis.

R. S. YADAV, Under Secy.

New Delhi, the 3rd January 2001

F. No. 6/9/00-DRT.—In pursuance of the powers conferred by Sub-Section 1 of Section 8 read with Section 9 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby appoints Justice Shitla Prasad Srivastava, Judge, High Court of Allahabad as Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad for a period of five years from the date on which he enters upon his office i.e. on 3-1-2001 or until he attains the age of sixty five years, whichever event occurs earlier.

U. K. SINHA, Joint Secy.

New Delhi-110001, the 3rd January 2001

No. A-19012/26/80-Estt.—Shri K. K. Mangal, Under Secretary in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, stands retired from the Government Service w.e.f. the afternoon of 31st December, 2000 on attaining the age of superannuation.

S. K. BATRA, Under Secy.

No. A-19011/200/98-Estt.—Shri Arun Chandra, Deputy Secretary in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, stands retired from the Government Service w.e.f. the afternoon of 31st December, 2000 on attaining the age of superannuation.

S. K. BATRA, Under Secy.

CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi-110003, the 20th December 2000

No. A.22012/1/99-2000/MF - CGA/Admn./1366.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Thapliyal, (ICAS-1968) as Additional Controller General of Accounts in the office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi with effect from the forenoon of 19th December 2000.

SIDDHARTH SHARMA
Assistant Controller General of Accounts (Admn.)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 21st November 2000

No. 32/2000 (A-19011/23/2000-E.I.).—Reference Notification No. 30/2000 dated the 18th October, 2000 regarding appointment of Shri Shashank Priya, IC & CES (90) as Deputy Secretary in the Department of Commerce w.e.f. the forenoon of 18th October, 2000.

2. The batch of Shri Shashank Priya, IC & CES shown in the aforesaid Notification may kindly be read as "1988" instead of "1990".

H. R. JASSAL, Under Secy.

The 14th December 2000

No. 34/2000 (A-19011/28/2000-E.I.).—The President is pleased to appoint Shri R. Gopalan, IAS (TN-76) as Joint Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the forenoon of 14th December, 2000 and until further orders.

H. R. JASSAL, Under Secy.

EPZ SECTION

New Delhi, the 24th November 2000

No. 1/6/96-VEPZ.—The President is pleased to appoint Shri P. Purushotham, Preventive Officer, Office of the Commissioner of Customs House, Visakhapatnam as Appraiser in the office of the Development Commissioner, Visakhapatnam Export Processing Zone, Visakhapatnam, in the pay scale of Rs. 6500-10,500/- with effect from 3-11-2000, on deputation basis for a period upto 15-5-2003 or until further orders.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy

The 29th November 2000

No. A.5(4)/2/2000-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri V. Somasundaram, Assistant Section Officer, Department of Information and Tourism, Govt. of Tamil Nadu, Chennai as Estate Manager Madras Export Processing Zone, Madras in the pay scale of Rs. 6500—10500/- on deputation basis for a period of 3 years with effect from 13-11-2000 (Forenoon), or until further orders.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 5th January 2001

No. N-16/2000-5/3/2000-Pers.I/50.—In partial modification of Notification No. 13/2000 dated 5-12-2000, the notional date of promotion of Shri H. C. Dabral and Sh. Raj Kamal will be 24-12-96.

A. K. M. CHAKANKAR
Jt. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 15th December 2000

No. 2/31/2000-Admn./DSIR.—In pursuance of Department of Personnel and Training (ACC) communication No. 22/6/2000-EO (SM-I) dated 7-12-2000, the President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar, IAS (UP:78) as Joint Secretary in the Department of Scientific and Industrial Research in the pay scale of Rs. 18,100-500-22,400 for a normal tenure of 5 years w.e.f. 12th December 2000 (F/N), and until further orders

GURMIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 27th December 2000

No. A-32012/2/98-P.I.(.)—With the approval of the competent authority and the DOPT, vide their U.O. No. 4039/2000-Estt(D), dated 28-11-2000, the ad-hoc appointment of Shri Om Prakash, to the post of Research Officer (Env.) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Environment & Forests is extended from 1-1-2001 to 30-6-2001 or till the regular incumbent joins, whichever is earlier.

2. The aforesaid ad-hoc appointment shall not confer any right upon Shri Om Prakash to claim any regular appointment in the post of Research Officer (Environment).

S. S. S. SARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPTT. OF HEALTH)

New Delhi, the 22nd December 2000

No. A.38012/9/2000 CHS II.—Consequent on her retirement on attaining the age of superannuation Dr. (Smt) A. K. Bhasin, Addl. Director CGHS, Mumbai, an SAG level officer in GD Sub-cadre of the Central Health Service relinquished the charge of the post with effect from afternoon of 30th September, 2000

N. K. PUSHPAKARAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 2nd January 2001

No. 30-3/2000-PP.II.—Shri F. Bivera, Assistant Director (Entomology) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, an attached office of this Department, retired from Government service on attaining the age of superannuation and relinquished the charge of the post on 30-11-2000 (Afternoon).

RANI MAKHIJANI, Under Secy.

New Delhi, the 22nd December 2000

No. 27-1628/98-I.I.—The President is pleased to permit Shri V. K. Bhatnagar, Principal Private Secretary, in the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, to retire from Government Service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st December, 2000 (A/N).

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 27th December 2000

No. 19101/341/94-E.V.—The President is pleased to permit Shri Rajendra Singh, a regular Assistant Director (Crops) (Rs. 7500-12000) and presently working as Agonomist (Rs. 10000-15200) in this Department on deputation basis, to retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31-12-2000.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 19011/11/2000-E.V.—The President is pleased to permit Dr. M. K. Mathur, Additional Commissioner (Crops) (Rs. 14360—18300) in the Department of Agriculture & Cooperation, to retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31-12-2000.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110001, the 26th December 2000

No. A-19012/(12)4/97-EA.—Consequent upon completion of his terms of appointment as Chairman in the Commission for Agricultural Costs and Prices, an attached office of Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi, Professor Abhijit Sen has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 26th December, 2000.

SUKUMAR, Under Secy.

No. A-19014/(12)1/98-EA.—In pursuance of Department of Statistics & Programme Implementation's Order No. 12019/1/99-ISS dated 12-12-2000, the period of deputation of Smt. Shailja Sharma, a grade III Officer of Indian Statistical Service who was posted as Deputy Research Director in the Commission for Agricultural Costs and Prices, an attached office of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, upto 31st August, 2000 is hereby extended till further orders.

SUKUMAR, Under Secy.

The 2nd January 2001

No. A-19012/12/2000 EA.—Consequent on his transfer from Department of Agriculture & Cooperation and in pursuance to Directorate of Economics and Statistics Office Order No. 49/2000-stt.IES dated 18-12-2000, Shri Asim Sarkar, an IES Officer has assumed the Charge of the post of Assistant Economic Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics w.e.f. 20-11-2000 (F/N).

SUKUMAR, Under Secy.

No. A-19012/13/2000-EA.—Consequent on his relief from Tariff Commission, Ministry of Commerce and Industry and in pursuance to Directorate of Economics and Statistics Office Order No. 50, 2000-Estt.IES dated 18-12-2000, Dr. Y. Uppal, an IES Officer has assumed the Charge of the post of Additional Economic Adviser in the Directorate of Economics & Statistics w.e.f. 28-11-2000 (F, N).

SUKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 13th December 2000

No. 13-15, 2000-SPG.—The following officers of Indian Postal Service Group 'A' have been retired from Government service on attaining the age of superannuating w.e.f. 30-11-2000 (A/N).

Sl. No., Name of the Officers & Present Posting
(S/Shr.)

1. H. Mishra—Orissa Circle.
2. H. G. Iyengar—Karnataka Circle.
3. N. R. Trivedi—Gujarat Circle.

R. C. SHARMA, Asstt. Director General (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 2nd January 2001

No. 97/E(GR)/I/32/I.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Personnel Service with effect from the date noted against each :—

S. No., Name & Date of Joining
(S/Shri/Ms.)

1. Suresh Chandra Srivastava—01-09-97.
2. Deepak Kumar Gupta—04-09-97.
3. Navin Agarwal—04-09-97.
4. Surya Prakash—01-09-97.
5. Anand Madhukar—04-09-97.

6. Madhup Vyas—01-09-97.

7. Siddharath Kati—04-09-97.

8. L. V. S. Satyanarayana Patrudu—25-08-97.

MANEESH KUMAR, Jt. Director, Estt. (GR)

No. 98/E(GR)/I/33/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Railway Protection Force with effect from the date noted against each :—

S. No., Name & Date of Joining
(S/Shri/Ms.)

1. Santosh Kumar Dubey—21-12-98.
2. Satya Prakash—07-09-98.
3. Jyoti Kumar Satija—07-09-98.
4. Amaresh Kumar—07-09-98.
5. Anand Vijay (Provisional)—21-12-98.
6. Vijay Kumar Singh—21-12-98.
7. Siddharth Kati—04-09-97.
8. Vivek Sagar—21-12-98.
9. Santosh N. Chandran—04-03-99.
10. Prathvi Raj Meena—21-12-98.
11. Bhukya Ramakrishna (Provisional)—04-03-99.

MANEESH KUMAR, Jt. Director, Estt. (GR)

The 3rd January 2001

No. 97/E(GR)/I/33/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Railway Protection Force with effect from the date noted against each :—

S. No., Name & Date of Joining
(S/Shri/Ms.)

1. Pradeep Kumar Gupta—25-08-97.
2. Yugal Kishore Joshi (Provisional)—04-09-97.
3. B. Venkateshwar Rao—04-09-97.
4. Bohra Alok Sundarlal—25-08-97.
5. Samabh Trivedi—25-08-97.
6. Mohd. Saquib—25-08-97.
7. Rama Shankar Prasad Singh—04-09-97.
8. Ramesh Chandra—04-09-97.
9. Pallakonda Ramesh—01-09-97.

MANEESH KUMAR, Jt. Director, Estt. (GR)

MINISTRY OF SHIPPING

(ESTT I SECTION)

New Delhi, the 29th December 2000

No. A-12026/3/2000-EI.—The President is pleased to appoint Shri J. C. Bajaj, Draftsman Grade I in Development Wing of this Ministry as Chief Draftsman in the same Wing of the Ministry in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 on regular basis with effect from 27-11-2000 (F/N), until further orders.

REENA SETHI, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(ESTT I SECTION)

New Delhi, the 19th December 2000

No. A-12028/3/2000-EI.—The President is pleased to appoint Shri A. Dushyanth Kumar, Office Secretary, Indian Renewable Energy Development Agency Limited as First Personal Assistant to Minister of State for Road Transport & Highways (Independent charge) [Major General (Retd) B. C. Khandurij in the pay scale of Rs. 6500—10500 wef 13th Dec, 2000 (F/N) on co-terminus basis or until further orders.

REENA SETHI, Under Secy.

The 26th December 2000

No. A-12034/7/2000-E.I.—In pursuance of Deptt. of Personnel & Training's O.M. No. 31/17/2000-EO (MM-I) dated 14th November, 2000, Shri P. S. Rana, a CSS Officer at the level of Under Secretary, is appointed as Under Secretary, in the Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 27-11-2000 (F/N) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 until further orders.

REENA SETHI, Under Secy.

No. A-12034/7/2000-E.I.—In pursuance of Deptt. of Personnel & Training's O.M. No. 31/17/2000-EO (MM-I) dated 14th November, 2000, Shri O. P. Srohe, a CSS Officer at the level of Under Secretary, is appointed as Under Secretary, in the Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 01-12-2000 (F/N) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 until further orders.

REENA SETHI, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-1, the 22nd December 2000

No. 12/2/2000-Admn.II(Pt.).—The President is pleased to appoint Shri V. K. Chaudhary as Officer on Special Duty

in the scale of pay of Rs. 12,000-175-16,500 in the personal staff of Hon'ble Minister of State for Information and Broadcasting (Shri Ramesh Bais) wtf 01-10-2000 and until further orders.

2. The appointment of Shri Chaudhary will be at the pleasure of and co-terminus with the tenure of the Ministry of State for Information and Broadcasting (Shri Ramesh Bais).

H. G. UPRETI, Under Secy.

The 26th December 2000

No. 13/1/2000-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Sharma, IAS (MT : 1975) as Joint Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400 w.e.f. the forenoon of 21-12-2000.

2. The tenure of Central Deputation to the above mentioned post in respect of Shri Sharma will be five years w.e.f. 21-12-2000.

H. G. UPRETI, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001

